

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 जून 2016—आषाढ़ 9, शक 1938

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 30 जून 2016

क्र. 214-पीएसजी-आरएमपी-2016.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर भारत के संविधान की धारा 164 के अंतर्गत निम्नलिखित विधायकों को मंत्री एवं राज्यमंत्री नियुक्त किया है :—

मंत्री

1. श्री ओमप्रकाश धुर्वे
2. श्री रूस्तम सिंह
3. श्रीमती अर्चना चिटनीस
4. श्री जयभान सिंह पवैया

राज्य मंत्री

1. श्री हर्ष सिंह
2. श्री संजय पाठक
3. श्रीमती ललिता यादव
4. श्री विश्वास सारंग
5. श्री सूर्य प्रकाश मीना

राज्यपाल ने उक्त मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों को गुरुवार दिनांक 30 जून, 2016 को अपरान्ह 5.00 बजे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय तिकी, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.